

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

विषय-हिंदी
वर्ग-चतुर्थ

दिनांक-30/06/2020
विषय-शिक्षिका— नीतू कुमारी
पाठ-5 (चतुर टॉम)

सुप्रभात बच्चों,

पिछली कयी कक्षा में आपने चतुर टॉम कहानी का अध्ययन किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अध्ययन-सामग्री को पूरे मनोयोग से पढ़ते होंगे। आज उसी पाठ का प्रश्नावली हल करेंगे। जो कि इस प्रकार है। :-

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:—

(क) टॉम के दोस्तों ने क्या सोचकर चहारदीवारी पर पुताई की?

उत्तर- टॉम के दोस्तों ने यह सोचकर चहारदीवार की पुताई की यह आसान काम नहीं है।

(ख) अगर तुम टॉम की जगह होते तोव ऐसी स्थिति में तुम क्या करते?

उत्तर- अगर मैं टॉम की जगह होता तो चहारदीवारी की पुताई खुद करता।

(ग) सोचकर बताओ टॉम ने अपने दोस्तों की दी हुई चीजों का क्या किया होगा?

उत्तर— टॉम अपने दोस्तों की दी हुई चीज को खाया और उससे खेला होगा।

(घ) अंत में टॉम को दिन क्यों अच्छा लगने लगा?

उत्तर- अंत में टॉम को दिन इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि उसे काम करना भी नहीं पड़ा और पूरी दीवार की पुताई हो गयी और उसे कयी चीजें भी मिल गयीं।

(ङ) किसने किससे कहा और क्यों?

(1) आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है।

उत्तर — बेन ने टॉम से क्योंकि टॉम चहारदीवार की पुताई कर रहा था।

(2) अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पॉली मौसी मुझे कितना डाँटेगी।

उत्तर— टॉम ने बेन से क्योंकि वो बेन को बातों में उलझाकर उससे काम करवाना चाहता था।

(3) पहले पुताई तो पूरी करो।

उत्तर— पॉली मौसी ने टॉम से क्योंकि टॉम जल्दी ही पुताई करके आ गया था।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:—

(क) टॉम कैसा बच्चा था?

उत्तर — टॉम शरारती बच्चा था।

(ख) पॉली मौसी ने उसे घर की चहारदीवारी पर पुताई करने का काम सौंपा तो उसे क्या लगा?

उत्तर— पॉली मौसी ने उसे घर की चहारदीवारी पर पुताई का काम सौंपा तो उसे लगा की आज उसका पूरा दिन बेकार जाएगा।

(ग) टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में कैसे लगाया?

उत्तर- टॉम में अपने मित्रों को पुताई के काम में यह कहकर लगाया कि यह कोई आसान काम थोड़े न है।

रोज-रोज चहारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है।

(घ) अंत में टॉम ने क्या सोचा?

उत्तर— अंत में टॉम ने सोचा की उसका दिन अब अच्छा हो गया क्योंकि सारा काम भी हो गया और उसे बहुत सारी चीजें भी मिल गयीं।

दी गयी अध्ययन-सामग्री को सुंदर एवं शुद्ध-शुद्ध लिखें।

गृहकार्य :—

बच्चों दिए गए प्रश्नोत्तर को याद करें तथा माता-पिता को सुनाएँ।